

Ref. No. CFCL/SE/2023-24/46

February 9, 2024

**BSE Limited** 

Phiroze Jeejeebhoy Towers 25<sup>th</sup> Floor, Dalal Street Mumbai - 400 001 BSE Script Code: 500085 National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, C-1, Block G, Bandra Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai - 400 051

NSE Symbol: CHAMBLFERT

Dear Sir.

Sub: Submission of Post-Buyback Public Announcement for Buyback of Equity Shares of Chambal Fertilisers and Chemicals Limited ("Company")

Pursuant to Regulation 24(vi) of the Securities and Exchange Board of India (Buy-Back of Securities) Regulations, 2018, as amended ("Buyback Regulations"), the Company has published the post-buyback public announcement for the buyback of 1,55,55,555 (One Crore Fifty Five Lakhs Fifty Five Thousand Five Hundred and Fifty Five) fully paid-up equity shares of the Company of face value of Rs. 10/- (Rupees Ten only) each at a price of Rs. 450/- (Rupees Four Hundred and Fifty Only) per equity share on a proportionate basis from the equity shareholders of the Company as on the record date of Thursday, January 18, 2024, through the tender offer route.

In this connection, please find enclosed copies of post-buyback public announcement dated February 8, 2024, published in the below mentioned newspapers on February 9, 2024, containing the disclosures as specified in Regulation 24(vi) of Buyback Regulations:

Sr. No.	Name of the Newspaper	Language	Editions
1.	Financial Express	English	All Editions
2.	Jansatta	Hindi	All Editions
3.	Rashtradoot	Hindi	Kota Edition

You are requested to notify your constituents accordingly.

Thanking you,

Yours faithfully,

for Chambal Fertilisers and Chemicals Limited

(Tridib Barat)

Vice President - Legal & Company Secretary

Encl: As above.

Tel No.: 91-744-2782915 ; Fax No.: 91-7455-274130

**FINANCIAL EXPRESS** 

## **DMI Finance Private Limited**

CIN - U64990DL2008PTC182749

Express Building, 3rd Floor, 9-10 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002 STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED DECEMBER 31, 2023 [Regulation 52 (8), read with Regulation 52 (4) of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (LODR Regulations)

(Rs in Millions) For the quarter For the quarter **Previous Year Particulars** No. December 31. December 31, ended as on 2023 2022 March 31, 2023 **Total Income from Operations** 7,206.47 4,205.36 16,372.16 Total revenue from operations 40.73 46.59 192.90 Other Income Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/ 1,287.31 881.83 4,378.58 or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional 1,287.31 881.83 4,378.58 and/or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional 964.37 652.32 3,240.16 and/or Extraordinary items) Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit 964.42 651.54 3,414.70 / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] Paid up Equity Share Capital 7.424.87 6.567.38 6,567.75 Reserves (excluding Revaluation Reserve) 59,608.92 8,308.50 35,493.42 Securities Premium Account 46,561.31 25,710.06 25,711.77 67,033.79 40,667.15 42,061.17 Net worth 70,572.35 36,690.92 40,968.71 Paid up Debt Capital / Outstanding Debt Outstanding Redeemable Preference Shares 0.00 0.00 0.00 1.05 0.90 0.97 **Debt Equity Ratio** Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) 1. Basic: 1.30 0.99 4.93 1.28 0.98 4.86 2. Diluted: Capital Redemption Reserve 81.21 81.21 81.21 Debenture Redemption Reserve N.A. N.A. N.A. Debt Service Coverage Ratio N.A. N.A. N.A. Interest Service Coverage Ratio N.A. N.A. N.A.

#### Notes to the Financial Results:

1. The above results are an extract of detailed format of the quarterly/annual Financial Results filed with the stock exchange under Regulation 52 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. These financial results are available on the website viz. www.dmifinance.in and on the website of BSE (www.bseindia.com)

2. For the other items referred in Regulation 52(4) of (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the pertinent disclosures have been made to BSE Limited (BSE) and can be accessed on the website of BSE (www.bseindia.com) and on the Company's website i.e. www.dmifinance.in

3. There is no Debenture Redemption Reserve created as Non-Banking Finance Companies (NBFC) registered with Reserve Bank of India are not required to create DRR for privately placed debentures.

4. Reserves include Securities Premium Account and Capital Redemption Reserve also.

Paid up Debt Capital / Outstanding Debt include Debt Securities, Borrowings and Lease Liabilities.

6. Figures for the prior year / period have been regrouped and / or reclassified wherever considered necessary. 7. The impact on net profit / loss, total comprehensive income or any other relevant financial item(s) due to change(s) in accounting

policies shall be disclosed by means of a footnote. 8. The above results have been approved by the Audit Committee at its meeting held on February 07, 2024, and subsequently approved

by the Board of Directors at their respective meeting held on February 08, 2024. For DMI Finance Private Limited

Date: February 08, 2024 Place: New Delhi

1. Name of the Target Company

Shivashish Chatteriee **Joint Managing Director** 

POST OFFER ADVERTISEMENT UNDER REGULATION 18(12) IN TERMS OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) **REGULATIONS, 2011 AS AMENDED** 

FOR THE ATTENTION OF THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF

#### COROMANDEL ENGINEERING COMPANY LIMITED CIN: L74910TN1947PLC000343

Registered and Corporate Office Parry House, V Floor, 43 Moore Street, Chennai - 600 001, India Tel: +91 44 25301700 | Email: coromandelengg@cec.murugappa.com Website: www.coromandelengg.com

Open Offer for Acquisition of up to 84.68.244 fully paid-up Equity Shares of face value of Rs.10/- pach, representing 25.48% of the Voting Share Capital of Coromandet Engineering Company Limited ["Target Company") from the Public Shareholders of the Target Company by Accord Distillers & Brewers Private Limited (Acquirer 1), Teyro Labs Private Limited (Acquirer 2), Jam Hotels and Resorts Private Limited (Acquirer 3) and Mr. Sundeep Anand Jegeth Rakshagan (Acquirer 4) there nafter collectively referred to as "Acquirers"), pursuant to and in compliance with the requirements of the SEBI (SAST) Regulations ("Offer" or "Open Offer").

All capitalised terms not defined herein shall have the same meaning, as specified in the Letter of Offer dated October 16. 2023 ("LOF")

This Post Offer Advertisement is being issued by Fortress Capital Management Services Private Limited, the Manager to the Offer, on behalf of the Acquirers, in connection with the Offer made by the Acquirers in compliance, with regulation 18(12) of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulation, 2011 and subsequent amendments thereto ('SEBI (SAST) Regulations').

The Detailed Public Statement with respect to the afgrementationed offer was made on October 9, 2023 in the Financial Express (English daily) all editions, Jansatia (Hindi daily) all editions, Navshakb (Marathi daily) Mumbal edition and Makkal Kural (Tame daily) Chemia edition.

Coromandel Engineering Company Limited

2	Name of the Acquirers	Accord Distillers & Brawers Private Limited (Acquirer 1), Teyro Labs Private Limited (Acquirer 2), Jam Hotels and Reseas Private Limited (Acquirer 3) and Mr. Sundeep Anand Jegath Rakshagan (Acquirer 4)			rer 3)
3.	Name of the Manager to the Offer		ital Management S		
4.	Name of the Registrar to the Offer	Blashare Services Private Limited			
5.	Offer Details				
(a)	Date of the Operang of the Offer	January 16, 2024			
(b)	Date of the Closing of the Offer	As per LOF January 30, 2024 Actual January 31, 2024 (extended by 1 day vide Configendum dated January 24, 2024)			
6	Date of the Payment of Consideration	February 7, 2	024		
7.	Details of the Acquisition				
Sr. No.	Particulars	Proposed in the Offer Document		Act	lual
7.1	Offer Price	INR 13,50	per Share	INR 13.50 per Share	
7.2	Aggregate Number of Shares tendered	84.68244		16,613 <sup>3</sup>	
7.3	Agoregale Number of Shares accepted	84.68.244		16,613 <sup>A</sup>	
7,4	Size of the Offer (Number of shares nautiplied by offer price per share)	INR 11.43.21.294		INR 2.24.275.50	
7.5	Shareholding of the Acquirers before Share Purchase Agreements (SPAs) and Public Announcement (No. and Percentage)	N	IIL	N	I <b>L</b>
7.6	Shares Acquired byway of Share Purchase Agreements (SPAs)				
	• Number	2,435	3,733	2.43	3,733
	• % Fully Diluted Equity Share Capital	73.28%		73.28%	
77	Shares Acquired by way of Open Offer				
	• Number		244		13 <sup>a)</sup>
	% Fully Diluted Equity Share Capital	25	48%	0.0	5%
7 B	Shares Acquired after Detailed Public Statement				
	Number of Shares acquired		IL .		L
	Price of the shares acquired		IA		A
7	· % of the shares acaulred	N	IA	N	A
7.9	Post offer Shareholding of Acquirers	0.000	4027.6	0.40=	0.040
	• Number		1,977		0,346
7.40	% Fully Diluted Equity Share Capital		76%		33%
7.10	Pre and Post Offer Shareholding of Public Shareholders	Pre Offer	Post Offer (1)	Pre Offer	Post Offer
	• Number	8468,244	0	84.68244	84 51,631
	% Fully Dijuted Equity Share Capital	25.48%	0%	25 48%	2543%

## Notes.

(1) Assuming full acceptence of Equity Sheles under the Open Offer

(2) Out of 16.613 full-oaid up Equity Shares tendered, 16.613 Equity Shares were in dematerialised from and N/L Equity Share's were in physical from. (3) Out of 16,613 full paid up Equity Shares condered 16,613 Equity Shares in dematerialised from were validly

tendered and accepted. (4) The Acquirers have completed the acquisition of Sale Shares under the SPA, in compliance with Regulation 22(2)

of the SEBI SAST Regulations (5) Three promoter group members holding 4,11,621 Equity Shares (1.24%) were not parties to the SPA and continue

to remain the part of the promoter group after the change of management by the Acquirers under Regulation 4 of SEBI (SAST) Regulations till they are reclassified as public shareholders, the application for their remassification as public shareholders is under process. 8 The Acquirer 1, Acquirer 2, Acquirer 3, its Directors and Acquirer 4 acoapt full responsibility for the information contained

In this Post Offer Advertisement and for the fulfillment of their obligations under the SEBI (SAST) Regulations. 9 This Post-Offer Advertisement will be available on the website of the SEBI at www.sebigovin, BSE at

www.bseindia.com and all Registered Office of the Target Company

#### Manager to the Open Offer

## FORTRESS

Fortress Capital Management Services Private Limited

Address: Daryanagar House, 69, Mahanshi Karve Road, Marine Lines, Mumbai - 400 002, India Tel. No.: (91 22) 22007973 | Contact Person: Mr. Hitesh Doshi | Email: Niteshdoshi@fortress.co.in CIN: U67120MH2004PTC145815 | Website: www.forbresscapital in

SEBI Registration No.: INM000011146

For and behalf of the Acquirers

Acquire r 1	Acquirer 2	Acquirer 3	Acquirer 4
sdF	sdc	sdŁ	sd!
Accord Distillers & Brewers Private Limited	Teyro Labs Private Elmited	Jam Hotels and Resorts Private Limited	Mr. Sundeep Anand Jegath Rakshagan

Darte: February 8. 2024 Place: Chennai

financialexp.epapr.in

LYKA LABS LIMITED

CIN: L24230GJ1976PLC008738 • Website: www.lykalabs.com UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER,2023 (Rs in lakhs, except per share data) CONSOLIDATED **STANDALONE** Quarter Quarter Nine Month Nine Month Year ended Quarter Quarter Nine Month Nine Month Year ended Sr. Particulars Quarter ended 31st ended 31st Ended 31st Ended 31st Ended 31st March, ended 31st ended 31st Ended 31st Ended 31st Ended 31st March, Sep, 2023 Dec, 2022 Dec, 2023 Dec, 2022 2023 Dec, 2023 Sep, 2023 Dec, 2022 Dec, 2023 Dec, 2022 2023 (Unaudited) (Unaud 1. Total Income from Operations 2,676.00 1,713.20 7,941.22 6,113.75 8,059.26 3,256.38 2,798.65 1,781.56 8,342.73 7,083.42 9,307.27 3,141.52 2. Net Profit / (Loss) for the period (before Tax. (35.80) (327.94) 113.00 (318.79) (577.67) Exceptional and/or Extraordinary items) (39.43)(303.40)32.45 (324.38) (603.43)328.65 240.16 3. Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) (79.28) (1,028.99) (993.08)27.93 (1,027.85) (1,320.84) 69.52 (1,017.09) (1,317.11) 240.16 (43.95)328.65 4. Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) (55.22) (1,020.44) (1,321.18) (48.65)(1,041.59)(64.76) (1,028.12) (1,328.66) 136.46 (29.23) (1,021.33) 178.10 5. Total Comprehensive Income for the period (56.69) (1,026.26) (1,324.81) [Comprising Profit / (Loss) for the period (after (29.23) (1,024.51) (46.51) (1,041.05) 133.33 (69.47) (1,037.65) (1,334.94) 179.20 tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] 3,309.00 2,869.00 3,309.00 2,869.00 3,069.00 3,309.00 3,309.00 2,869.00 3,309.00 2,869.00 3,069.00 3,309.00 **6.** Equity Share Capital 7. Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown 1,475.06 in the Audited Balance Sheet of the previous year 4,573.63

Registered Office: 4801 / B & 4802 / A, G.I.D.C. Industrial Estate, Ankleshwar- 393002.

The standalone and consolidated unaudited financial results of the Company for the quarter and nine months ended 31st December, 2023 have been reviewed by the Audit Committee at it's meeting held on 8th February, 2024 and approved by the Board of Directors in its meeting held on 8th February, 2024. The Statutory Auditors of the Company have reviewed above results for quarter and nine months ended 31st December 2023.

(0.22)

(0.22)

(3.61)

(3.61)

Note: The above is an extract of the detailed format of quarter and nine months ended financial results for 31st December, 2023 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of the quarterly and nine montly financial results are available on the Stock Exchanges Websites www.nseindia.com; www.bseindia.com and on the Company's website www.lykalabs.com.

For and on behalf of the Board of Directors

(0.19)

(0.19)

(3.59)

(3.59)

(4.63)

(4.63)

Kunal. N. Gandhi (DIN: 01516156) **Managing Director & CEO** 

(4.65)

(4.65)

0.53

0.53

(0.16)

(0.16)

(3.64)

(3.64)



**8.** Earnings Per Share (of Rs. 10/- each)

Diluted:

Place: Mumbai

Date: 8th February, 2024

(for continuing and discontinued operations)

#### **CHAMBAL FERTILISERS AND CHEMICALS LIMITED** Corporate Identification Number (CIN): L24124RJ1985PLC003293

Registered Office: Gadepan, Distt. Kota, Rajasthan, PIN - 325 208 Corporate Office: "Corporate One", First Floor, 5 Commercial Centre, Jasola, New Delhi - 110 025 Phone: +91 744 2782915 / +91 11 4169 7900; Fax: +91 7455-274130/ +91 11 40638679; Email: complianceofficer@chambal.in; Website: www.chambalfertilisers.com Company Secretary and Compliance Officer: Mr. Tridib Barat

POST BUYBACK PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR THE ATTENTION OF EQUITY SHAREHOLDERS/BENEFICIAL OWNERS OF EQUITY SHARES OF CHAMBAL FERTILISERS AND CHEMICALS LIMITED This post buybackoublic approuncement (the "Post Buyback Public Announcement") is being made pursuant to Requiation 24(v) of the Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations. 2018 (the "Buyback Regulations"). This Post Buyback Public Announcement should be read in conjunction with the public announcement dated January 09, 2024 published on January 10, 2024 (the "Public Announcement"), the letter of offer dated January 22, 2024 (the "Letter of Oller") and. Corrigenda and Notice to Eligible Shareholders - Buyback of Equity Shares dated January 24, 2024. Published on January 25, 2024. Capitalised terms used but not delined in this Post Buyback Public Announcement shall have the same meanings as assigned in the Public Announcement and the Letter of Offer.

1.1. Chambal Fertilisers and Chemicals Limited (the "Company") had announced a buyback of up to 1.55,55,555 (One Crore Fifty Five Lakhs Fifty Five Thousand Five Hundred and Fifty Five) tulty paid-up equity shares of Rs. 10/- (Rupees Ten only) each of the Company ("Equity Shares") from the equity shareholders / beneficial owners holding Equity Shares as on January 18, 2024, on a proportionate basis, through the "Tiender Offer" route, using the stock exchange mechanism as prescribed under the Buyback Regulations, at a maximum price of Rs. 450/- (Rupees Four Hundred and Fifty only) per Equity Share, payable in cash for an aggregate amount of up to Rs. 700 Clores (Rupees Seven Hundred Crores only) (the "Buyback") which represents 9.82% and 9.52% of the aggregate of the fully paid-up equity share capital and free reserves as per the latest audited standalone and consolidated financial statements of the Company, respectively. Jot the financial year ended March 31, 2023, and represented up to 3.74% of the total pad-up equity share capital of the Company.

1.2. The Company adopted the Tender Offer route for the Buyback. The Buyback was implemented using the "Mechanism for acquisition of shares through Stock Exchange" notified by SEBI vide circularno. CIR/CFD/POLICYCELI/1/2015 dated April 13, 2015 read with SEBI circular no. CFD/DCR2/CIR/P/2016/131 dated December 9, 2016, SEBI circularno. SEBI/HO/CFD/DCR4II/CIR/P/2021/615 dated August 13, 2021 and SEBI circular no. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/35 dated March 08, 2023, including any further amendments thereaf.

1.3. The Tendering Period for the Suyback opened on Wednesday, January 24, 2024 and closed on Wednesday, January 31, 2024 (both days inclusive).

0.40

0.40

(0.10)

(0.10)

(3.57)

(3.57)

2. DETAILS OF BUYBACK

2.1. 1.55.55,555 (One Crore Filty Five Lakhs Fitty Five Thousand Five Hundred and Fifty only) per

2.2. The total amount utilized in the Buyback is Rs. 699.99.750 (Runees Six Hundred Ninety Nine Lakhs Ninety Nine Thousand Seven Hundred and Fifty only), excluding Transaction Costs. 2.3. The Registrar to the Buyback i.e. Link Intime India Private Limited ("Registrar"), considered 66.382 valid bids for 7,02,63,913 Equity Shares in response to the Buyback resulting in the subscription of

Category	No. of Equity Shares Reserved in the Buyback	No. of Valid Bids	Total Equity Shares Validly Tendered	% Response
Reserved Category for Small Shareholders	23,33,334	62,221	1,17,16,819	502.15%
General Category for ail other Equity Shareholders	1,32,22.221	4,161	5.85 47 094	442.79%
Total	1,55,55,555	66,382	7,02,63,913	451.70%

2.4. All valid bids were considered for the purpose of Acceptance in accordance with the Buyback Regulations and the terms set out in the Letter of Offer. The communication of Acceptance/rejection has been dispatched by the Registrar to the eligible Equity Shareholders on February 08, 2024.

2.5. The settlement of all valid bids which were Accepted was completed by the Indian Clearing Corporation Limited ("Clearing Corporation") on February 07, 2024.

approximately 4.52 times of the maximum number of Equity Shares proposed to be bought back. The details of the valid bids considered by the Registrar, are as follows:

2.6. The Cleaning Corporation has made direct funds payout to the Eligible Shareholders whose shares have been Accepted under the Buyback. If the Eligible Shareholders' bank account details were not available or if the fund transfer instruction was rejected by RBI/respective bank, due to any reason, such funds were transferred to the concerned Stock Brokers' settlement bank account for onward transfer to such 2.7. Equity Shares held in dematerialized form Accepted under the Buyback were transferred to the Company's Demat Account on February 07, 2024. The unaccepted Equity Shares, if any, tendered by the Eligible

Shareholders in dematerialized form was released/returned / lien removed by the Clearing Corporation and transferred directly to the respective Eligible Shareholder's dematerialized form was released/returned / lien removed by the Clearing Corporation and transferred directly to the respective Eligible Shareholder's dematerialized form was released/returned / lien removed by the Clearing Corporation and transferred directly to the respective Eligible Shareholder's dematerialized form was released/returned / lien removed by the Clearing Corporation and transferred directly to the respective Eligible Shareholder's dematerialized form was released/returned / lien removed by the Clearing Corporation and transferred directly to the respective Eligible Shareholder's dematerialized form was released/returned / lien removed by the Clearing Corporation and transferred directly to the respective Eligible Shareholder's dematerialized form was released/returned / lien removed by the Clearing Corporation and transferred directly to the respective Eligible Shareholder's demand and transferred directly to the respective Eligible Shareholder's demand and transferred directly to the respective Eligible Shareholder's demand and transferred directly to the respective Eligible Shareholder's demand and transferred directly to the respective Eligible Shareholder's demand and transferred directly to the respective Eligible Shareholder's demand and transferred directly to the respective Eligible Shareholder's demand and transferred directly to the respective Eligible Shareholder's demand and transferred directly to the respective Eligible Shareholder's demand and transferred directly to the respective Eligible Shareholder's demand and transferred directly to the respective Eligible Shareholder's demand and transferred directly to the respective Eligible Shareholder's demand and transferred directly to the respective Eligible Shareholder's demand and transferred directly to the respective Eligible Shareholder's demand and transferred d payout process on Wednesday, February 07, 2024. 2.8. The extinguishment of 1.55.55.555 (One Crore Fifty Five Thousand Five Hundred and Fifty Five) Equity Shares Accepted under the Buyback, comprising of all Equity Shares in dematerialized

torm is currently under process and shall be completed on or before Finday, February 16, 2024. 2.9. The Company, and its Directors, accept responsibility for the obligations of the Company laid down under the Buyback Regulations.

3. CAPITAL STRUCTURE AND SHAREHOLDING PATTERN

3.1. The capital structure of the Company, pre and post Buyback, is as under:

Sr	Parliculars	Pre Buyback*	Pre Buyback*		
No.		No. of Equity Shares	Amount (in Rs.)	Mo. of Equity Shares	Amount (In Rs.)
1	Authorized Share Capital	44,00,00,000 Equity Shares of Rs.10 each	440.00 00 000	44.00.00.000 Equity Shares of Rs 10 each	440,00.00,000
		21,00,00,000 Redeemable Preference Shares of Rs.10 each	210.0000000	21,00,00,000 Redeemable Preference Shares of Rs.10 each	210,00,00,000
2	Issued. Subscribed and Paid-up Capital	41.62,07,852 Equity Shares of Rs.t0 each, July pald up	416.20,78,520	40.06,52.297 Equity Shares of Rs.10 each, fully paid up	400.65.22.970

\* As on record date for Buyback i.e., Thursday, January 18, 2024 \*\* Subject to extirguishment of 1,55,55,555 Equity Shares

3.2. Details of shareholders from whom Equity Shares exceeding 1% of the total Equity Shares bought back, are as under:

Sr. No.	Name	Number of Equity Shares Accepted under Buyback	Equity Shares Accepted as a % of total Equity Shares bought back (%)	Equity Shares Accepted as a % of lotal Post Buyback Equity Share Capital (%)
1.	The Hindustan Times Limited	21,51,150	13.83	0.54
2	Zuari Industiles Limited	20,52,341	13.19	0.51
3.	SIL Investments Limited	11,73,971	7.55	0.29
4.	Earthstone Holding (Two) Private Limited	5,35,777	3.44	0.13
5,	Chandra Shekhar Nopany (Shekhar Family Trusi)	4,86,389	3.13	0.12
6.	HDFC Mutual Fund (Multiple Schemes)	4,78,870	3.08	0.12
7	Nippon Life India Trustee Ltd-A/C Nippon India Small Cap Fund	3,31,491	2.13	0.08
₽.	BNP Paribas Financial Markets	3,07,184	1.97	0.08
9.	Earthstone Invesiment & Finance Limited	3,05,649	1,96	0.08
10.	Yashovardhan Investment & Trading Co. Ltd.	2,74,078	1.76	0.07
11.	Ronson Traders Limited	2,48,388	1.60	0.06
12.	Unam Commercial Ltd	2,36,236	1.52	0.06
13.	Manbhawani Investment Ltd.	1,97,084	1.27	0.05
14	Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund, A Series of Vanguard International Equity Index Funds	1,82,796	1.18	0.05
15.	Vanguard Total International Stock Index Fund	1,76,868	1.14	0.04
	Total	91,38 272	58.75%	2.28%

3.3. The shareholding pattern of line Company, pre and post Buyback, is as under

Calegory	Pre-Buyba	ck*	24,32,11,277	ick**	
	Number of Equity Shares	% of Shareholding	Number of Equily Shares	% of Shareholding	
Promoter and Promoter Group	25,20.57.905	60.56	24,32,11,277	6070	
Domestic Institutions — Fls/Banks/ Mutual Funds/ Insurance Companies/ Alternate Investment Funds	2,73,38,971	6 57			
Foreign Holding - Fils/FPIs/NRIs/Foreign Nationalis & Overseas Corporate Bodies	6,11.51,670	14.69	15,74,41,020	3930	
Indian Public, Corporates & Others	7.56,59,306	18 18			
Total	41,62.07,852	100:00	40,06,52,297	100.00	
A service of details the threat to The selection of the second					

\* As on record date for Bryback i.e., Thursday, January 18, 2024 \*\* Subject to extinguishment of 1,55,55,555 Equity Shares

# MANAGER TO THE BUYBACK

## AXIS CAPITAL

Axis Capital Limited

1st Floor Axis House, C-2, Wadia International Centre, P.B. Marg, Worli, Mumbai - 400 025, Maharashtra, India. Telephone: + 91 22 4325 2183

Fax: + 91 22 4325 2000

Email: CFCL buyback ax scapin Website: www.axiscapdal.co.in

Contact Person: Simran Gadh / Jigar Jain SEBI Registration No.: 1NM000012029

Corporate Identification Number: U51900MH2005PLC157853

5. DIRECTORS RESPONSIBILITY

As per Regulation 24(i)(a) of the Buyback Regulations, the Board of Directors of the Company accepts responsibility for the information contained in this Post Buyback Public Announcement or any other information, advertisement, circular, brochure, publicity material which may be issued and confirms that such document contains true, factual and material information and does not contain any trusleading

For and on behalf of the Board of Directors of Chambal Fertitisers and Chemicals Limited

Sd/-Sd-Rita Menon Ableay Barjal Tridib Barat Managing Director Director Company Secretary and Compliance Officer DIN: 015880B7 Membership No. 12247 DIN: 00064714

Date: February 08, 2024

Place: New Delft

Adfactors 579

सीआईएन : एल17111डीएल1982पीएलसी013790 चावला हाउस, तृतीय तल, 19, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019

31 दिसंबर 2023 को समाप्त तिमाही तथा नी माह

р.		समाप्त तिमाह	डी	समाप्त	नौ माह	समाप्त वर्ष
<del>d</del> .	31.12.2023 (पुनरीक्षित)	30.09.2023 (पुनरीक्षित)	31.12.2022 (पुनरीक्षित)	31.12.2023 (पुनरीक्षित)	31.12.2022 (पुनरीक्षित)	31.03.2023 (लेखापरीक्षित
आय						
परिचालनों से राजस्व	795.95	873.60	246.21	2,083.56	645.89	914.95
अन्य आय	1.17	1.16	0.49	2.33	0.50	0.50
कुल आय	797.12	874.76	246.69	2,085.90	646.38	915.46
अवधि हेतु निवल लाभ (कर, आपवादिक एवं	MANAGE	1570/01/02	034533		0.3453559	545,445
असाधारण मदों से पूर्व)	(142.80)	95.51	(50.36)	(118.76)	4.19	(84.02)
कर पूर्व अवधि हेतु निवल लाभ (आपवादिक एवं	X507707840		UNIVERSAL NO.	\$2000000000000000000000000000000000000		110/25/12/25
असाधारण मदों के उपरांत)	(142.80)	95.51	(50.36)	(118.76)	4.19	(84.02)
अवधि हेतु निवल लाभ (कर, आपवादिक एवं				11,000,000	110100	11.00.000.000
असाधारण मदों के उपरांत)	(106.60)	69.26	(32.31)	(89.30)	1.30	(55.04)
वर्ष हेतु कुल व्यापक आय	(106.60)	69.26	(26.29)	(89.30)	7.32	(45.65)
प्रदत्त समता अंश पूंजी	N. A. A.		31	85 85		
(रु. 10 / – का अंकित मूल्य)	314.00	314.00	314.00	314.00	314.00	314.00
आरक्षितियाँ आय प्रति अंश (अवार्षिकीकृत)	(107.16)	183.59	553000	76.42		165.72

वित्तीय परिणामों हेत संलग्नक नोट देखें टिप्पणियाँ :

| मूलभूत एवं तरलीकृत ईपीएस

. कंपनी जो है वो पंजीकरण संख्या 14.00233 के साथ 11 अप्रैल 2023 से प्रभावी होकर भारतीय रिजर्व बैंक ('आरबीआई') के साथ पंजीकृत एक नॉन–डिपॉजिट लेनेवाली नॉन–सिस्टेमिकली महत्त्वपूण, अ–बैंकिंग वित्तीय कंपनी ('एनबीएफसी') है। कंपनी व्यक्तिगत ऋण क्षेत्र में व्यवसाय का संचालन करती है। कंपनी का व्यवसाय एक एकल प्राथमिक खण्डवार अर्थात 'वित्तीय सेवाओं' की परिधि के अंतर्गत आता है तथा इसलिये आईएनडीएएस 108 की प्रकटीकरण आवश्यकता-''परिचालनरत खण्डवार'' लाग नहीं है।

2.21

(1.03)

(2.84)

ii. वित्तीय परिणामों की समीक्षा. लेखापरीक्षण समिति द्वारा की गई है तथा बाद में कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा 8 फरवरी 2024 को आयोजित अपनी बैठक में। इनका अनमोदन किया गया।

(3.39)

iii. भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड ('सेबी') (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमावली 2015 के विनियम 33 के अनुपालन अनुसार, 31 दिसंबर 2023 को समाप्त तिमाही एवं नौ माह की अवधि के वित्तीय परिणामों की एक 'सीमित समीक्षा', कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गयी है। v. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45—आईसी के अनुसार अन्य समताओं में सांविधिक आरक्षित सम्मिलित है तथा आय सुरक्षित है। . सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के अधिनियमन तथा उसके अंतर्गत अधिसूचित नियमावली पर उत्पन्न होनेवाला परिवर्तनों के प्रभाव, यदि कोई, का मूल्यांकन कंपनी द्वारा उसकी प्रभावी तिथि के उपरांत किया जायेगा

vi. पूर्ववर्ती अवधि से संबंधित आंकड़ों को वर्तमान अवधि के अनुरूप तुलनायोग्य बनाने के लिये, जहां–जहां भी अनिवार्य समझा गया है, वहां–वहां पुनर्व्यवस्थित / पुनर्समृहित किया गया है। कंपनी के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप, कंपनी की वेबसाइट : http://www.unifinz.in/ पर तथा दोनों स्टॉक एक्सचेंज(जों) की वेबसाइटों अर्थात् मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (www.msei.in) पर तथा बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट (www.bseindia.com) पर उपलब्ध है।

बोर्ड हेतु तथा उसकी ओर से युनिफिंज कैपिटल इंडिया लिमिटेड (पूर्व में श्री वर्स्टेक्स लिमिटेड के रूप में विदित)

हस्ता. /-

0.04

(1.75)

दिनांक : 08-02-2024 स्थान : नई दिल्ली

पवन कुमार मित्तल(निदेशक) डीआईएन : 00749265

POST OFFER ADVERTISEMENT UNDER REGULATION 18(12) IN TERMS OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) **REGULATIONS, 2011 AS AMENDED** 

FOR THE ATTENTION OF THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF

#### COROMANDEL ENGINEERING COMPANY LIMITED

CIN: L74910TN1947PLC000343 Registered and Corporate Office: Parry House, V Floor, 43, Moore Street, Chennai - 600 001, India . Tel: +91 44 25301700 | Email: coromandelengg@cec.murugappa.com Website: www.coromandelengg.com

Open Offer for Acquisition of up to 84,68,244 fully paid-up Equity Shares of face value of Rs.10/- each, representing 25.48% of the Voting Share Capital of Coromandel Engineering Company Limited ("Target Company") from the Public Shareholders of the Target Company by Accord Distillers & Brewers Private Limited (Acquirer 1), Teyro Labs Private Limited (Acquirer 2), Jam Hotels and Resorts Private Limited (Acquirer 3) and Mr. Sundeep Anand Jegath Rakshagan (Acquirer 4) (hereinafter collectively referred to as "Acquirers"), pursuant to and in compliance with the

requirements of the SEBI (SAST) Regulations ("Offer" or "Open Offer"). All capitalised terms not defined herein shall have the same meaning, as specified in the Letter of Offer dated October 16,

This Post Offer Advertisement is being issued by Fortress Capital Management Services Private Limited, the Manager to the Offer, on behalf of the Acquirers, in connection with the Offer made by the Acquirers in compliance, with regulation 18(12) of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulation, 2011 and subsequent amendments thereto ("SEBI (SAST) Regulations").

The Detailed Public Statement with respect to the aforementioned offer was made on October 9, 2023 in the Financial Express (English daily) all editions, Jansatta (Hindi daily) all editions, Navshakti (Marathi daily) Mumbai edition and Makkal Kural (Tamil daily) Chennal edition.

1.	Name of the Target Company	Coromandel 8	Engineering Comp	mpany Limited		
2.	Name of the Acquirers	Accord Distillers & Brewers Private Limited (Acquirer 1), Teyro Labs Private Limited (Acquirer 2), Jam Hotels and Resorts Private Limited (Acquirer 3) and Mr. Sundeep Anand Jegath Rakshagan (Acquirer 4)				
3.	Name of the Manager to the Offer	Fortress Capital Management Services Private Limited				
4.	Name of the Registrar to the Offer	Bigshare Sen	vices Private Limit	ed		
5.	Offer Details	2				
(a)	Date of the Opening of the Offer	January 16, 2	024			
(b)	Date of the Closing of the Offer	Actual: Janua	January 30, 2024 ary 31, 2024 (exte dated January 24	nded by 1 day v	ide	
6.	Date of the Payment of Consideration	February 7, 2024				
7.	Details of the Acquisition		11			
Sr. No.	Particulars		ed in the ocument	Actual		
7.1	Offer Price	INR 13.50	per Share	INR 13.50 per Share		
7.2	Aggregate Number of Shares tendered	84,68,244 "		16,613 (2)		
7.3	Aggregate Number of Shares accepted	84,68,244 (1)		16,613 <sup>(3)</sup>		
7.4	Size of the Offer (Number of shares multiplied by offer price per share)	INR 11,43,21,294		INR 2,24,275.50		
7.5	Shareholding of the Acquirers before Share Purchase Agreements (SPAs) and Public Announcement (No. and Percentage)	NIL		NIL		
7.6	Shares Acquired by way of Share Purchase Agreements (SPAs) (1)  Number  We Fully Diluted Equity Share Capital	2,43,53,733 73,28%		2,43,53,733 73.28%		
7.7	Shares Acquired by way of Open Offer  Number  Kelly Diluted Equity Share Capital	84,68,244 <sup>(1)</sup> 25,48%		16,613 <sup>(3)</sup> 0.05%		
7.8	Shares Acquired after Detailed Public Statement  Number of Shares acquired  Price of the shares acquired  of the shares acquired	NIL NA NA		NIL NA NA		
7.9	Post offer Shareholding of Acquirers  Number  Kully Diluted Equity Share Capital	3,28,21,977 (1) 2,43,70,1 98.76% 73.33°				
7.10	Pre and Post Offer Shareholding of	Pre Offer	Post Offer (%)	Pre Offer	Post Offer	
	Public Shareholders  Number	84,68,244	0	84,68,244	84,51,631	
	% Fully Diluted Equity Share Capital	25.48%	0%	25.48%	25.43%	

## Notes:

- Assuming full acceptance of Equity Shares under the Open Offer.
- (2) Out of 16,613 full-paid up Equity Shares tendered, 16,613 Equity Shares were in dematerialised form and NIL Equity Shares were in physical from.
- (3) Out of 16.613 full-paid up Equity Shares tendered, 16.613 Equity Shares in dematerialised form were validly tendered and accepted. (4) The Acquirers have completed the acquisition of Sale Shares under the SPA, in compliance with Regulation 22(2)
- of the SEBI SAST Regulations. (5) Three promoter group members holding 4,11,621 Equity Shares (1.24%) were not parties to the SPA and continue
- to remain the part of the promoter group after the change of management by the Acquirers under Regulation 4 of SEBI (SAST) Regulations till they are reclassified as public shareholders, the application for their reclassification as public shareholders is under process.
- 8. The Acquirer 1, Acquirer 2, Acquirer 3, its Directors and Acquirer 4 accept full responsibility for the information contained in this Post Offer Advertisement and for the fulfilment of their obligations under the SEBI (SAST) Regulations.
- This Post-Offer Advertisement will be available on the website of the SEBI at www.sebi.gov.in, BSE at www.bseindia.com and at Registered Office of the Target Company.

## Manager to the Open Offer

# **FORTRESS**

Fortress Capital Management Services Private Limited Address: Darvanagar House, 69, Maharishi Karve Road, Marine Lines, Mumbai - 400 002, India

Tel. No.: (91 22) 2200 7973 | Contact Person: Mr. Hitesh Doshi | Email: hiteshdoshi@fortress.co.in

CIN: U67120MH2004PTC145815 | Website: www.fortresscapital.in

SEBI Registration No.: INM000011146

or and behalf of the Acquirers					
Acquirer 1	Acquirer 2	Acquirer 3	Acquirer 4		
sd/-	sd/-	sd/-	sd/-		
Accord Distillers & Brewers Private Limited	Teyro Labs Private Limited	Jam Hotels and Resorts Private Limited	Mr. Sundeep Anand Jegath Rakshagan		

Place: Chennai

Date: February 8, 2024

'प्रपत्र सं. आईएनसी—26" कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में) कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय एक राज्य से दूसरे राज्य में अंतरित करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विद्यापन

क्षेत्रीय निदेशक, (केंद्र सरकार) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के समझ उत्तरी क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के खंड (ए) के मामले में

भिवाडी पॉलिमर लिमिटेड जेसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय : 25, नियर राजधानी पार्क मेट्रो स्टेशन मुंडका, नॉर्थ दिल्ली, दिल्ली–110041 इन में स्थित है

आम जनता को यह सुचना दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समझ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन फाइल का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "राजरेखान राज्य" में रथानांतरित करने के लिए तारीख बृहस्पतिवार, 25 जनवरी, 2024 की आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में संशोधन की पृष्टि की मांग की गई हैं।

कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित कर कें और साथ अपनी आपत्ति प्रादेशिक निदेशक उत्तरी क्षेत्र, को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर बी-2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीज़ीओ कॉम्प्लेक्स, न्ई दिल्ली—110003 पर्ने पर पंजीकत डाक दवारा भेज सकता है या सुपुर्द कर सकर्त है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी की उनके उपरोक्त रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजेगा। 25. नियर राजधानी पार्क मेट्रो स्टेशन मुंडका, नॉर्थ दिल्ली, दिल्ली-110041

मिवाडी पाँलिमर लिमिटेड हस्ता / तिथि : 09.02.2024 अंकित कवकड स्थान : दिल्ली निदेशक ढीआईएन : 02900898 पता : ए-140, मीरा बाग, पश्चिम विहार सुंदर विहार, एस. ओ, नई दिल्ली-110087

फार्म नं. आइएनसी-26 [कंपनीज (इनकार्पोरेशन) नियमों, 2014 के नियम 30 के अनुवर्ती] एक राज्य से अन्य राज्य में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन हेत् समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन

> क्षेत्रीय निदेशक. उत्तरी क्षेत्र. कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के समक्ष

कंपनीज (इनकार्पोरेशन) नियमों, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5)(ए) तथा कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) के विषय में।

एसपीटीपी एजुकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निगमित कंपनी है, जिसका पंजीकृत कार्यालय एन-17, पाल बिल्डिंग, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, जैन मंदिर के पास. दक्षिण पश्चिम दिल्ली. नई दिल्ली. 110016 है

पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने के लिए आपत्ति मांगने वाला नोटिस सामान्य जनता को एतदहारा सचना दी जाती है कि कंपनी ने अपना पंजीकृत कार्यालय "राष्ट्रीय राजधानी

क्षेत्र दिल्ली" से "गुजरात राज्य" में बदलने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 08 दिसंबर, 2023 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरंडम के परिवर्तन की पृष्टि मांगने के लिए कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय को आवेदन करना प्रस्तावित है।

ंकंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन द्वारा प्रभावित होने वाले कोई व्यक्ति, अपनी आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 14 दिनों के अन्दर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 को विरोध के कारण तथा हित की प्रकृति वर्णित करने वाले शपथ-पत्र द्वारा समर्थित आपत्तियों को पंजीकृत डाक द्वारा या कारणों को भेजें या **निवेशक शिकायत प्रपत्र भरने द्वारा एमसीए पोर्ट**ल (www.mca.gov.in) पर डिलीवर करने के साथ उसकी प्रति ऊपर वर्णित पते पर आवेदक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय पर भेजनी है:

कृते एसपीटीपी एजुकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

हार्दिक रिंमकांत शाह अतिरिक्त निदेशक तिथि: 08.02.2024 स्थानः नई दिल्ली डीआईएन: 10125075

31.12.2023 को समाप्त तिमाही/नौ महीनें के लिए अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश (लाख रु. में, जब तक अन्यथा न कहा जा समाप्त नौ महीनें विवरण (अनंकेक्षित) (अनंकेक्षित) 3.90 11.58 10.66 14.21 ( शुद्ध ) -3.00 -3.33लाभ/(हानि) (कर से पूर्व) अवधि के लिए शुद्ध ल (हानि)(कर के बाद) अवधि के दौरान कु 0.96 0.63 -1.52 व्यापक आय [ अवधि के लिए (कर के बाद) लाभ/(हानि) तथा अन्य व्यापक आय (कर के बाद) को शामिल करके] 50.00 50.00 50.00 मुल्य 10/-रु. प्रति) अंकेक्षित तुलन पत्र में दर्शाए आरक्षितों के अरिरिक्त) (इपीएस) (रु.)

ओसवाल लीजिंग लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय: 105, अशोका एस्टेट, 24, बाराखंबा रोड, नई दिल्ली-110001 CIN: L65910DL1983PLC016036, फोन: (011) 23313955, फैक्स: (011) 23316374

ईमेलः oswal\_leasing@owmnahar.com, वेबसाइटः http://owmnahar.com/leasing\_ltd/about.php

ऑडिट कमेटी द्वारा समीक्षा की गई है और उसके बाद 08 फरवरी, 2024 को आयोजित निदेशकों के बोर्ड की बैठक अनुमोदित किया है। वित्तीय परिणाम कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षिकों द्वारा सीमित समीक्षा के अधीन किए जा रहे है। 2. उपरोक्त विवरण सेबी (आपत्तियों के सचीकरण एवं प्रकृटीकरण अपेक्षांए) विनियमों, 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत शेयर बाजार में दाखिल 31 दिसंबर. 2023 को समाप्त तिमाही और नौ महीनें के लिए अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तत प्रारूप का सार है। 31 दिसंबर, 2023 को समाप्त तिमाही और नौ महीनें के लिए अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों का संपू विवरण शेयर बाजार की वेबसाईट (www.bseindia.com) तथा कम्पनी की वेबसाईट (www.owmnahar.com) पर भी उपलब्ध हैं।

-0.60

**टिप्पणी**: 1. दिनांक 31 दिसंबर, 2023 को समाप्त तिमाही और नौ महीनें के लिए कंपनी के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों व

-0.21

-0.03

मूल व तनुकृत इपीएस

कृते ओसवाल लीजिंग लिमिटेड

CONCEPT

दिनांक: 08.02.2024 कमल ओसव अध्यक्ष सह गैर-कार्यकारी निदेशक डीआईएन नं.: 0049321 स्थानः नर्ड दिल्ली



कृतों की ओर से

## CHAMBAL FERTILISERS AND CHEMICALS LIMITED

Corporate Identification Number (CIN): L24124RJ1985PLC003293 Registered Office: Gadepan, Distt. Kota, Rajasthan, PIN - 325 208 Corporate Office: "Corporate One", First Floor, 5 Commercial Centre, Jasola, New Delhi - 110 025 Phone: +91 744 2782915 / +91 11 4169 7900; Fax: +91 7455-274130/ +91 11 40638679; Email: complianceofficer@chambal.in; Website: www.chambalfertilisers.com Company Secretary and Compliance Officer: Mr. Tridib Barat

POST BUYBACK PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR THE ATTENTION OF EQUITY SHAREHOLDERS/BENEFICIAL OWNERS OF EQUITY SHARES OF CHAMBAL FERTILISERS AND CHEMICALS LIMITED This post buyback public announcement (the "Post Buyback Public Announcement") is being made pursuant to Regulation 24(vi) of the Securities and Exchange Board of India (Buy-back of Securities) Regulations. 2018 (the "Buyback Regulations"). This Post Buyback Public Announcement should be read in conjunction with the public announcement dated January 09, 2024 published on January 10, 2024 (the "Public Announcement"), the letter of offer dated January 22, 2024 (the "Letter of Offer") and, Corrigenda and Notice to Eligible Shareholders - Buyback of Equity Shares dated January 24, 2024, published on January 25, 2024. Capitalised terms used but not defined in this Post Buyback Public Announcement shall have the same meanings as assigned in the Public Announcement and the Letter of Offer.

THE BUYBACK

- 1.1. Chambal Fertilisers and Chemicals Limited (the "Company") had announced a buyback of up to 1,55,55,555 (One Crore Fifty Five Lakhs Fifty Five Hundred and Fifty Five) fully paid-up equity shares of Rs. 10/- (Rupees Ten only) each of the Company ("Equity Shares") from the equity shareholders / beneficial owners holding Equity Shares as on January 18, 2024, on a proportionate basis, through the "Tender Offer" route, using the stock exchange mechanism as prescribed under the Buyback Regulations, at a maximum price of Rs. 450/- (Rupees Four Hundred and Fifty only) per Equity Share, payable in cash for an aggregate amount of up to Rs. 700 Crores (Rupees Seven Hundred Crores only) (the "Buyback") which represents 9.82% and 9.52% of the aggregate of the fully paid-up equity share capital and free reserves as per the latest audited standalone and consolidated financial statements of the Company, respectively, for the financial year ended March 31, 2023, and represented up to 3.74% of the total paid-up equity share capital of the Company
- 1.2. The Company adopted the Tender Offer route for the purpose of the Buyback. The Buyback was implemented using the "Mechanism for acquisition of shares through Stock Exchange" notified by SEBI vide circular no. CIR/CFD/POLICYCELL/1/2015 dated April 13, 2015 read with SEBI circular no. CFD/DCR2/CIR/P/2016/131 dated December 9, 2016, SEBI circular no. SEBI/HO/CFD/DCR-III/CIR/P/2021/615 dated August 13, 2021 and SEBI circular no. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/35 dated March 08, 2023, including any further amendments thereof.
- 1.3. The Tendering Period for the Buyback opened on Wednesday, January 24, 2024 and closed on Wednesday, January 31, 2024 (both days inclusive).
- 2. DETAILS OF BUYBACK
- 2.1. 1,55,55,555 (One Crore Fifty Five Lakhs Fifty Five Thousand Five Hundred and Fifty only) per Equity Share.
- 2.2. The total amount utilized in the Buyback is Rs. 699,99,99,750 (Rupees Six Hundred Ninety Nine Crores Ninety Nine Lakhs Ninety Nine Thousand Seven Hundred and Fifty only), excluding Transaction Costs. 2.3. The Registrar to the Buyback i.e. Link Intime India Private Limited ("Registrar"), considered 66,382 valid bids for 7,02,63,913 Equity Shares in response to the Buyback resulting in the subscription of approximately 4.52 times of the maximum number of Equity Shares proposed to be boundt back. The details of the valid hids considered by the Registrar, are as follows:

Category	No. of Equity Shares Reserved in the Buyback	No. of Valid Bids	Total Equity Shares Validly Tendered	% Response
Reserved Category for Small Shareholders	23,33,334	62,221	1,17,16,819	502.15
General Category for all other Equity Shareholders	1,32,22,221	4,161	5,85,47,094	442.799
Total	1 55 55 555	66.382	7 02 63 913	451.709

- 2.4. All valid bids were considered for the purpose of Acceptance in accordance with the Buyback Regulations and the terms set out in the Letter of Offer. The communication of Acceptance/rejection has been dispatched by the Registrar to the eligible Equity Shareholders on February 08, 2024.
- 2.5. The settlement of all valid bids which were Accepted was completed by the Indian Clearing Corporation Limited ("Clearing Corporation") on February 07, 2024.
- 2.6. The Clearing Corporation has made direct funds payout to the Eligible Shareholders whose shares have been Accepted under the Buyback. If the Eligible Shareholders' bank account details were not available or if the fund transfer instruction was rejected by RBI/respective bank, due to any reason, such funds were transferred to the concerned Stock Brokers' settlement bank account for onward transfer to such
- 2.7. Equity Shares held in dematerialized form Accepted under the Buyback were transferred to the Company's Demat Account on February 07, 2024. The unaccepted Equity Shares, if any, tendered by the Eligible Shareholders in dematerialized form was released / returned / lien removed by the Clearing Corporation and transferred directly to the respective Eligible Shareholder's demat account, as part of the exchange
- payout process on Wednesday, February 07, 2024. 2.8. The extinguishment of 1,55,55,555 (One Crore Fifty Five Lakhs Fifty Five Thousand Five Hundred and Fifty Five) Equity Shares Accepted under the Buyback, comprising of all Equity Shares in dematerialized form is currently under process and shall be completed on or before Friday, February 16, 2024.
- 2.9. The Company, and its Directors, accept responsibility for the obligations of the Company laid down under the Buyback Regulations.
- CAPITAL STRUCTURE AND SHAREHOLDING PATTERN
- 3.1. The capital structure of the Company, pre and post Buyback, is as under:

Sr.	Particulars	Pre Buyback*		Post Buyback**		
No.		No. of Equity Shares	Amount (in Rs.)	No. of Equity Shares	Amount (in Rs.)	
1	Authorized Share Capital	44,00,00,000 Equity Shares of Rs.10 each	440,00,00,000	44,00,00,000 Equity Shares of Rs.10 each	440,00,00,000	
	93	21,00,00,000 Redeemable Preference Shares of Rs.10 each	210,00,00,000	21,00,00,000 Redeemable Preference Shares of Rs.10 each	210,00,00,000	
2	Issued, Subscribed and Paid-up Capital	41,62,07,852 Equity Shares of Rs.10 each, fully paid up	416,20,78,520	40,06,52,297 Equity Shares of Rs.10 each, fully paid up	400,65,22,970	

\* As on record date for Buyback i.e., Thursday, January 18, 2024. \*\* Subject to extinguishment of 1,55,55,555 Equity Shares.

3.2. Details of shareholders from whom Equity Shares exceeding 1% of the total Equity Shares bought back, are as under:

Sr. No.	Name	Number of Equity Shares Accepted under Buyback	Equity Shares Accepted as a % of total Equity Shares bought back (%)	Equity Shares Accepted as a % of tota Post Buyback Equity Share Capital (%
1.	The Hindustan Times Limited	21,51,150	13.83	0.54
2.	Zuari Industries Limited	20,52,341	13.19	0.51
3.	SIL Investments Limited	11,73,971	7.55	0.29
4.	Earthstone Holding (Two) Private Limited	5,35,777	3.44	0.13
5.	Chandra Shekhar Nopany (Shekhar Family Trust)	4,86,389	3.13	0.12
6.	HDFC Mutual Fund (Multiple Schemes)	4,78,870	3.08	0.12
7.	Nippon Life India Trustee Ltd-A/C Nippon India Small Cap Fund	3,31,491	2.13	0.08
8.	BNP Paribas Financial Markets	3,07,184	1.97	0.08
9.	Earthstone Investment & Finance Limited	3,05,649	1.96	0.08
10,	Yashovardhan Investment &Trading Co. Ltd.	2,74,078	1.76	0.07
11.	Ronson Traders Limited	2,48,388	1.60	0.06
12.	Uttam Commercial Ltd.	2,36,236	1.52	0.06
13.	Manbhawani Investment Ltd.	1,97,084	1.27	0.05
14.	Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund, A Series of Vanguard International Equity Index Funds	1,82,796	1.18	0.05
15.	Vanguard Total International Stock Index Fund	1,76,868	1.14	0.04
	Total	91,38,272	58.75%	2.28%

3.3. The shareholding pattern of the Company, pre and nost Buyback, is as under

Category	Pre-Buyback*		Post-Buyback**	
	Number of Equity Shares	% of Shareholding	Number of Equity Shares	% of Shareholding
Promoter and Promoter Group	25,20,57,905	60.56	24,32,11,277	60.70
Domestic Institutions - FIs/Banks/ Mutual Funds/ Insurance Companies/ Alternate Investment Funds	2,73,38,971	6.57	05 10-52 0	
Foreign Holding – Flls/FPls/NRIs/Foreign Nationals & Overseas Corporate Bodies	6,11,51,670	14.69	15,74,41,020	39.30
Indian Public, Corporates & Others	7,56,59,306	18.18	5.00 (COM) (A-60 C)	75360021
Total	41,62,07,852	100.00	40,06,52,297	100.00

\* As on record date for Buyback i.e., Thursday, January 18, 2024.

\*\* Subject to extinguishment of 1.55.55.555 Equity Shares. MANAGER TO THE BUYBACK

AXIS CAPITAL

Axis Capital Limited 1st Floor, Axis House, C-2, Wadia International Centre, P.B. Marg, Worli, Mumbai - 400 025, Maharashtra, India.

Telephone: + 91 22 4325 2183 Fax: + 91 22 4325 2000 Email: CFCL.buvback@axiscap.in Website: www.axiscapital.co.in

Contact Person: Simran Gadh / Jigar Jain SEBI Registration No.: INM000012029 Corporate Identification Number: U51900MH2005PLC157853

DIRECTORS RESPONSIBILITY

As per Regulation 24(i)(a) of the Buyback Regulations, the Board of Directors of the Company accepts responsibility for the information contained in this Post Buyback Public Announcement or any other information, advertisement, circular, brochure, publicity material which may be issued and confirms that such document contains true, factual and material information and does not contain any misleading

For and on behalf of the Board of Directors of Chambal Fertilisers and Chemicals Limited

- 1					
	Sd/-	Sd/-	Sd/-		
	Abhay Baijal	Rita Menon	Tridib Barat		
	Managing Director	Director	Company Secretary and Compliance Officer		
	DIN: 01588087	DIN: 00064714	Membership No. 12247		

Place: New Delhi

Adfactors 579

Date: February 08, 2024

www.readwhere.com

#### पश्चिम मध्य रेल ई-निविदा सूचना संख्या: डब्ल्यू/623/15, दि.: 02.02.2024

मारतसंघ के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से वरिष्ठ मण्डल इंजीनियर (समन्वय), पश्चिम मध्य रेल कोटा निम्नलिखित कार्यों के लिए खुली ई-निविदाएं आमंत्रित करते है। (1) टेंडर संख्या: 10/2024 कार्य का विवरण : कोटा-मथरा सेक्शन :- रिपलेस्मेंट ओल्ड आरसीसी / स्टोन स्लेव विद आरसीर्स बॉक्स / स्लेव एट ब्रिज नं. 256अप. 257अप. 274 अप. 287अप. 292अप. 302अप. 303अप एण्ड 316अप अण्डर दि जूरिस्डिक्शन ऑफ एडीईएन-सवाई माधोपुर. अनुमानित लागतः ₹ 28043675.85 बयाना राशि: ₹ 290200.00 (2) टेंडर संख्या : 11/2024 कार्य का विवरण कोटा – मथुरा सेक्शन :– रिपलेस्मेंट ओल्ड स्टोन स्लेव / पाइप क्लर्वट विद आरसीसी बॉक्स एट ब्रिज नं.: 350एअप / डाउन, 408अप / डाउन, 422अप / डाउन, 429अप / डाउन, 460अप / डाउन, 461अप/ डाउन एण्ड 481अप/ डाउन अण्डर दि जूरिस्डिक्शन ऑफ एडीईएन – गंगापुर सिटी अनुमानित लागत: ₹ 32335289.52 बयाना राशि: ₹ 311700.00 (3) टेंडर संख्या : 12/2024 **कार्य का विवरण :** कोटा – नागदा सेक्शन : प्रोविजन ऑफ एलएचएस इन लियू ऑफ एलसी नं. : 86 एट किमी : 856 / 18-20 बिटविन रामगंज मंडी मोरक स्टेशनस अण्डर दि जूरिस्डिक्शन ऑफ एडीईएन , रामगंजमंडी. अनुमानित लागत : ₹ 38294567.76 बयाना राशि : ₹ 341500.00 (4) टेंडर संख्या 13/2024 **कार्य का विवरण :** इम्प्रूवमेंट टू फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, किचन प्लेटफॉर्म, टायलेटस, बाथरुम इम्प्रूवमेंट टू रूफ लीकेज, रिपलेस्मेंट ऑफ डोर्स, विन्डोज ईटीसी इन स्टाफ क्वार्टस इन कोटा -रुठियाई सेक्शन. **अनुमानित लागत : ₹ 11**266722.86 **बयाना राशि : ₹** 206300.00 **(5) टेंड**र **संख्या : 14/2024 कार्य का विवरण :** कोटा-मथुरा सेक्शन:- रिपलेस्मेंट ओल्ड आरसीसी/ स्टोन स्लेव विद आरसीसी बॉक्स/ स्लेव एट ब्रिज नं. 215अप/ डाउन, 2183अप/ डाउन, 219अप/ डाउन, 220अप/ डाउन अण्डर दि अण्डर दि जूरिस्डिक्शन ऑफ एडीईएन/ सेन्ट्रल/ कोटा. <mark>अनुमानि</mark>त लागत: ₹ 32333819.37 बयाना राशि : ₹ 311700.00 (5) टेंडर संख्या : 15/2024 आर कार्य का विवरण : नागदा-कोटा सेक्शन:- रिपलेस्मेंट ओल्ड स्लेव / बॉक्स ब्रिजेस विद न्यू आरसीसी / पीएससी स्लेव / आरसीसी बॉक्स एट बिज नं : 05अप. 06अप. 55 हाउन. 61अप. 63अप. 64अप एण्ड 68 डाउन अण्डर दि जूरिस्डिक्शन ऑफ एडीईएन-शामगढ़. अनुमानित लागत: ₹ 55772277.09 बयाना राशि : ₹ 428900.00 टेण्डर भरने की अंतिम तिथि व समय: क्र. 1 से 6 के लिए- 23.02.2024, 15.30 बजे। पूर्ण विवरण वेबसाइट www.ireps.gov.in पर अपलोड की गई ई. निविदा में तथा वरिष्ठ मण्डल इंजीनियर समन्वय पश्चिम मध्य रेल, कोटा मण्डल रेल प्रबंधक कार्यालय की कार्यलेखा शाखा के नोटिस बोर्ड पर देखा जा सकता है।

वरिष्ठ मण्डल इंजीनियर (समन्वय), प.म.रे., कोटा स्वच्छ भारत अभियान एक कदम स्वच्छता की ओर

तीये कि बैठक

अत्यंत दुख के साथ सूचित किया जाता है कि हमारी माताजी

श्रीमती द्रोपदी भाटिया जी

धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री जे.सी. भाटिया जी

का स्वर्गवास दिनांक - ७ फरवरी २०२४ को हो गया है तीये कि बैठक दिनांक - ९ फरवरी २०२४ शूकवार

दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक होगी!

राम भाटिया, प्रेम भाटिया एवं समस्त भाटिया परिवार कोटा

फोन नंबर। - 9413350335, ईमेल- service@bhatiaandcompany.co.in

कार्यालय नगर निगम. कोटा-दक्षिण. कोटा. राजस्थान

स्वामित्व हस्तांतरण बाबत सार्वजनिक विज्ञप्ति

निवासी भूखंड संख्या 50 महावीर नगर द्वितीय योजना कोटा दक्षिण द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर भूखंड संख्य

50 महाबीर नगर द्वितीय योजना कोटा क्षेत्रफल 962 वर्गफुट का स्वामित्व स्वयं के नाम हस्तांतरण करने

का आवेदन किया है। भखंड संख्या 50 महावीर नगर द्वितीय योजना कोटा क्षेत्रफल 962 वर्गफट क

आवंटन कार्यालय नगर<sup>े</sup> विकास न्यास कोटा के पत्रांक एफ (3947) आवेदन/न.वि.न्या./दिनांक

29.06.1976 को श्री गुमान सिंह हाड़ा पुत्र श्री मोती सिंह हाड़ा को किया गया है। श्री गुमान सिंह हाड़

की मृत्यु दिनांक 14.11.2010 को हो जाने के उपरांत उनके विधिक वारिसान 1. श्रीमती अन्जू राजाव

2. श्रीमती मन्जू सोलंकी 3. सुश्री सुधा हाड़ा 4. श्रीमती सुमन हाड़ा 5. श्रीमती हेमा हाड़ा 6. श्री जर

सिंह हाडा पिसरान श्री गमान सिंह हाडा द्वारा अपना-अपना हक रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र दिनांक 29.12.2023

से श्रीमती कमलेश हाड़ा पत्नी स्व. श्री गुमान सिंह हाड़ा को त्याग दिया। उक्त भूखंड संख्या 50 महावीर

नगर द्वितीय योजना आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार नगर निगम कोटा दक्षिण उक्त भूखंड के स्वामित

भूखंड से संबंध रखता है, को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 07 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित

कार्यालय नगर निगम, कोटा दक्षिण ( राज. )

भू-उपयोग परिवर्तन बाबत सार्वजनिक विज्ञप्ति

गुप्ता निवासी भूखंड संख्या 13 नर्सरी तलवण्डी कोटा (राज.) ने नगर निगम कोटा

दक्षिण में आवेदन प्रस्तुत कर भूखंड संख्या 13 नर्सरी तलवण्डी कोटा क्षेत्रफल 7532

वर्गफुट के आवासीय से मिश्रित प्रयोजनार्थ भू उपयोग परिवर्तन करने का निवेदन किया

है। भूखंड संख्या 13 नर्सरी तलवण्डी कोटा क्षेत्रफल 7532 वर्गफुट का स्वामित्व

कार्यालय नगर निगम कोटा द्वारा पत्र क्रमांक निनको/भ.नि.अनु./मुख्यालय/08/1615

दिनांक 20.01.2009 से डॉ. श्री दिनेश मित्तल पुत्र श्री मदन लाल गुप्ता के नाम

हस्तांतरित किया गया। आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार नगर निगम कोटा दक्षिण

द्वारा आवेदित भूखंड का आवासीय से मिश्रित प्रयोजनार्थ भू उपयोग परिवर्तन करने की

कार्यवाही की जा रही है। उक्त आवेदित भूखंड का आवासीय से मिश्रित प्रयोजनार्थ भू

उपयोग परिवर्तन करने में किसी व्यक्ति. संस्था या अन्य किसी को भी उक्त भूखंड से संबंध

रखता है, को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 15 दिवस में अपनी आपत्ति

लिखित में उपायक्त, नगर निगम कोटा दक्षिण कार्यालय में प्रस्तुत करें। बाद मियाद

कार्यालय नगर विकास न्यास, कोटा

161 श्री/श्रीमती मै. वुडमेक प्रो. श्री पीयूष असकन्दानी पुत्र श्री शंकर असकन्दानी को आवंटन/ नीलामी न्यास के पत्र दिनांक 01.10.2004 के द्वारा आवंटन किया गया था। आवंटी द्वारा

उक्त भूखंड का जर्ये रजि. विक्रय पत्र दिनांक 03.10.2008 को श्रीमती रितु निहलानी पत्नी

श्री कैलाश कुमार निहलानी को विक्रय कर दी गई है। अत: क्रेता द्वारा उक्त भूखंड के नाम

किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के ७ दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति

प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त भृखण्ड संख्या 161 योजना जनरल

मर्चेन्ट जे.पी. मार्केट का नाम हस्तान्तरण श्रीमती रितु निहलानी पत्नी श्री कैलाश कुमार

कार्यालय नगर विकास न्यास, कोटा

के पत्र दिनांक 13.03.2009 के द्वारा हस्तान्तरण किया गया था। आवंटी श्री फिरोज खान की मृत्यु

दिनांक 23.10.2022 को हो चुकी है। मृत्यु उपरांत आवंटी के विधिक वारिसान श्रीमती रुबीना

पत्नी स्व. श्री फिरोज खान द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, सहमति शपथ पत्र आई.डी. इत्यादि प्रस्तुत कर उक्त भूखंड पर निहित अपने हिस्से के नामहस्तान्तरण की स्वीकृति नगर विकास

को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत

कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त भूखण्ड संख्या 18 योजना गुमानपुरा थाने के पीछे का

नाम हस्तान्तरण श्री इस्लामुद्दीन पुत्र श्री अलानूर व अनवर अली पुत्र श्री रहमत अली व फिरोज खान पुत्र श्री जियाद मोहम्मद एवं श्रीमती रुबीना पत्नी स्व. फिरोज खान के नाम स्वीकृति जारी कर दी

कार्यालय नगर विकास न्यास, कोटा

अत: जरिये आम सचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी

नगर विकास न्यास कोटा की योजना गुमानपुरा थाने के पीछे का भुखंड संख्या/दकान संख्य 18 श्री इस्लामद्दीन पुत्र श्री अलानर व अनवर अली पुत्र श्री रहमत अली व फिरोज खान पुत्र श्री

नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना

जेयाद मोहम्मद एवं श्री फिरोज खान पुत्र श्री अब्दुल गफूर को संयुक्त नाम से नाम हस्तान्तर

अत: जरिये ऑम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में

हस्तान्तरण की स्वीकृति नगर विकास न्यास कोटा से चाही जा रही है।

निहलानी के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

नगर विकास न्यास कोटा की योजना जनरल मर्चेन्ट जे.पी. मार्केट के भूखंड संख्या/दुकान

नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि डॉ. श्री दिनेश मित्तल पुत्र श्री मदन लाल

उपायुक्त, द्वितीय कक्ष में प्रस्तुत करें। बाद मियाद आपत्ति मान्य नहीं होगी।

तमांक:-ननिकोद/जोन-प्रथम/भ.नि.अनु./2024/29365

उक्त भुखंड का स्वामित्व नाम हस्तान्तरण करने में किसी व्यक्ति, संस्था या अन्य किसी को भी उत्त

उपायुक्त नगर निगम कोटा दक्षिए

उपायुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण

उपसचिव नगर विकास न्यास, कोटा

उपसचिव नगर विकास न्यास. कोटा

दिनांक:-8.2.2024

दिनांक: 8.2.24

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती कमलेश हाड़ा पत्नी स्व. श्री गुमान सिंह हाड़

ःस्चाजः . उम्मेद क्लब, नयापुरा कोटा

ननिको-द./उपायुक्त जोन द्वितीय/भ.नि.अनु./2024/29362-63

-:स्थान :-

शोकाकुल परिवार

नाम हस्तांतरण की कार्यवाही की जा रही है।

आपत्ति मान्य नहीं होगी।



निरीक्षण के दौरान स्टेशन के पुनर्विकास कार्य की प्रगति का अवलोकन, स्टेशन परिसर की स्वच्छता. टिकट विंडों तथा अन्य यात्री सविधाओं का विधिवत जायजा लिया। उल्लेखनीय है कि कोटा मंडल के अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कायाकल्प किए जाने वाले 17 स्टेशनों

सांस्कृतिक कार्यक्रम

ने मन मोहा

कोटा, (निसं)। राजकीय कला

महाविद्यालय कोटा में साहित्यिक एवं

सांस्कृतिक समिति की ओर से आयोजित

कार्यक्रम में नृत्य, संगीत और गायन के

माध्यम से संस्कृति का उत्सव सहज ही

मंच पर उतर आया। सूर ताल और संगीत

के वाद्ययंत्र से बहुत ही सन्दर तरीके से मंच

को एक अलग ही लय मिल रही थी। इस

अवसर पर एकल गायन, युगल गायन,

समूह गायन, एकल नृत्य, युगल नृत्य और

समह नत्य की प्रतियोगिता में एक से बढ़कर

एक प्रस्तुतियों ने छात्र छात्राओं और दर्शक

दीर्घा में बैठे सभी संकाय सदस्यों का जहां

मन मोह लिया वहीं हर प्रस्तुति पर छात्र

और छात्राओं ने कलाकार साथियों का

उत्साह करते हुए अलग ही नृत्य में मगन

देश मेरे तेरी शान, तूने ओ रंगीला कैसा

जादू किया, काल्या कूद पड़ा मेला में, पीली

लूगड़ी का झाला। नृत्य और गायन में

राजस्थानी, पंजाबी, हरियाणवी संस्कृति

और लोक संस्कृति की झलक देखते ही

बन पड़ती है। महाविद्यालय की प्रस्तुति युवा

पीढी के उल्लास, उत्साह और उत्सवी मन

को ऐसे प्रस्तुत करता है कि बस आप देखते

रहिए। यहां पर भारतीय संस्कृति का उत्सव

पैरों की थिरकन और मन की गति में देखा

एलन कॉमर्स का

नमन कोटा टॉपर

कोटा, (निसं)। एलन कॅरियर इंस्टीट्यूट

प्राइवेट लिमिटेड ने इंजीनियरिंग व

मेडिकल एंटेंस एग्जाम्स के साथ अब

कॉमर्स की पढाई में श्रेष्ठता साबित की है। शुरुआत के दूसरे वर्ष में ही सीए फाउंडेशन

के परिणामों में एलन-एस कॉमर्स के

बताया कि दी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड

एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की ओर से जारी

किए गए सीए फाउंडेशन के परिणामों में

96 स्टूडेंट्स ने सफलता प्राप्त की है। इसमें

नमन जाजू ने सर्वाधिक 400 में से 338

अंक प्राप्त किए हैं। नमन ने कोटा टॉप किया

है। इसके साथ ही कन्या राठौर ने 329

और वेदांश भागवानी ने 318 अंक प्राप्त

किए हैं। कन्या राठौर ने बिजनेस मैथ्स एण्ड

लॉजिकल रीजनिंग-स्टेटिक्स में पूरे में से

पूरे 100 अंक प्राप्त किए हैं। एलन-एस

कॉमर्स के कोटा एवं मुंबई मेंटोर सौरभ

मृंदडा ने बताया कि स्थापना के दो वर्षों में ही एलन स्टूडेंट्स के बेहतर परिणामों की

परिणाम जारी होने के साथ ही रिजल्ट

सेलिब्रेशन किया गया। फैकल्टीज ने

स्ट्रडेंट्स का मुंह मीठा करवाया। स्ट्रडेंट्स

और पेरेंट्स में एलन की शिक्षा पद्धित को

लेकर उत्साह है।एलन एस कॉमर्स कोटा

के अकेडिमक हेड विवेक बंसल ने बताया

कि पिछले दिनों सीए फाइनल नवम्बर

की शारदा नारायण, आयुषी माहेश्वरी और

दिवाकर शर्मा ने 400 में से 200 से

अधिक प्राप्त कर ग्रुप-2 की परीक्षा में सफलता प्राप्त की। इसी तरह सीए

इंटरमीडिएट की परीक्षा में एलन के

क्लासरूम स्टूडेंट मयूर पटौदी, राहुल

जेठवानी, नमन कासलीवाल, राजीव

अग्रवाल ने दोनों ग्रुपों में सफलता प्राप्त

की। इंटरमीडिएट के परिणामों में टॉप-5

आवश्यकता

प्राचार्य एवं प्राध्यापक

हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी. राज.

विज्ञान, समाज शास्त्र, भूगोल,

कम्प्यूटर, चित्रकला,

लायब्रेरियन, पी.टी.आई

युजीसी योग्यताधारी आवेदक

अपने आवेदन दि.

13.02.2024 तक प्रमाण

पत्रों की फोटोप्रति सहित भेजें।

महात्मा गोपालराम महाविद्यालय

अन्ता (बारां )

9414444481,9460638395

E-mail:mgr.collage@yahoo.com

में दो स्टूडेंट्स एलन से रहे।

श्रृंखला शुरू हो गई है।

एलन-एस के मेंटोर विनोद शर्मा ने

ट्डेंट्स ने बेहतर परिणाम दिए हैं।

जा सकता है।

डी.आर.एम. ने बारां, छबड़ा, बून्दी एवं मांडलगढ़ स्टेशनों का निरीक्षण किया कोटा, (निसं)। मंडल रेल प्रबंधक में उक्त खण्ड के बारां, छबड़ा गुगोर, अनुसार:- कोटा डीआरएम मनीष लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। बून्दी तथा मांडलगढ़ स्टेशन शामिल है। तिवारी ने गुरूवार को छबड़ा पहुंचकर बारां स्टेशन का 23.04 करोड़, छबड़ा रेलवे स्टेशन पर अमृत भारत योजना के गुगोर का 21.18 करोड़, बून्दी स्टेशन तहत चल रहे निर्माण कार्यों व अन्य का 4.48 करोड़ की लागत कार्य किया जा रहा है। जिसमें स्टेशन परिसर के निर्धारित समय के भीतर कार्य को परा सौन्दर्यीकरण, प्रवेश द्वार का निर्माण कार्य, यात्री प्रतीक्षालय की उन्नति एवं

शौचालयों

इस निरीक्षण के दौरान मण्डल रेल प्रबंधक के साथ वरिष्ठ मंडल इंजीनियर (समन्वय) संजय यादव, वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक सौरभ जैन, वरिष्ठ मण्डल विद्युत इंजीनियर (टीआरडी) मोहन सिंह मीना, वरिष्ठ मंडल विधृत इंजीनियर (सामान्य) धर्मेन्द्र कस्तवार वाणिज्य प्रबंधक आशीष रावलानी. मंडल सुरक्षा आयुक्त ए.नवीन कुमार एवं अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे।

का सुधार का कार्य

छबडा संवाददाता

डीआरएम तिवारी ने कहा कि अमृत भारत योजना के तहत स्टेशन पर चल रहे कार्यों, स्टेशन की सुरक्षा, व्यवस्थाओ का निरीक्षण किया। उन्होंने गाड़ियों की स्थिति और भी जहां भी मानक के अनुरूप निर्माण कार्यों को कमियां है, उनको पूरा करने को लेकर बारी-बारी से स्टेशनों का निरीक्षण करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि किया जा रहा है व उचित दिशा निर्देश निर्माण कार्य में किसी भी तरह की दिए जा रहे हैं।

न्यायालय पीठासीन अधिकारी तहसीलदार अन्ता जिला बारां विज्ञप्ति मांक:- भू.अभि./2024/369-72

दिनांक-7.2.2024 सर्व साधारण को सचित किया जाता है कि ग्राम बिशनखेडी की आराजी खसरा म्बरान् 218 रकबा 0.85 ख.न. 219 रकबा 0.07 हेक्टेयर में खातेदार रामनाथ पुत्र गधोलाल हि. 1/2 जाति मेहर निवासी कोटा तहसील लाडपरा के नाम खातेदारी में दर्ज , खातेदार रामनाथ पुत्र माधोलाल जाति मेहर निवासी कोटा तहसील लाडपुरा द्वारा अपने जीवनकाल में एक वसीयत रजि. महावीरप्रसाद पुत्र जानकीलाल हि. 1/2 जाति मेहर निवासी कोटा तहसील लाडपुरा के पक्ष में करवायों गयी थी, जिसका प्रकरण न्यायालय पीठासीन अधिकारी तहसीलदार अन्ता जिला बारां में जैरकार है। उक्त प्रकरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति परिवारजन आदि को कोई आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशन के सात दिवस में अपना पक्ष कार्यालय समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करे। इसके पश्चात कोई आपत्ति/ उज्ज दावा स्वीकार नहीं होगा।

तहसीलदार ( भू.अ. ) अन्ता जिला बारां ( राज. )

# कोटा की नीलू को बेकर ऑफ द ईयर अवार्ड्स-2024

नवाजा गया है। नील ने बताया कि दिल्ली की एक प्रतिष्ठित होटल में एक भव्य बेहतरीन खाद्य उत्पाद को प्रदर्शित करते शेफ कुणाल कपूर थे।

कोटा. (निसं)। अपने बेहतरीन केक व हुए उनकी विशेषताएं बताई। ऐसे में कोटा अन्य प्रोडक्ट के लिए कोटा की नील को की नील को बेकिंग में उत्कृष्टता के साथ बेकर ऑफ द ईयर अवाडर्स-2024 से सम्मानित किया गया। उन्होंने एक 80 किलो का केक बनाया जो लोगों को बेहद ही पसंद आया। इतना बडा केक बनाए बेकर्स पुरस्कार समारोह का आयोजन जाने के साथ उसकी गुणवात्ता और किया गया जिसमें देशभर के विभिन स्वाद लोगों को पसंद आया। कार्यक्रम शहरों से बेकर्स यहां आए और अपने के मुख्य अतिथि भारतीय सेलिब्रिटी

#### राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

त्मांक:-उ.आ.आ./को.वृ.को./2023-2024/4552 जाहिर आम सूचना

आवास संख्या 1 एच 11 रंगबाड़ी कोटा का आवंटन मंडल द्वारा श्रीमती शहजादी बेगम पत्नी श्री नजीर खाँ को किया गया। श्रीमती शहजादी बेगम द्वारा उक्त आवास का बैचान जरिये इकरारनाम मुख्तारनामा एवं वसीयतनामा आलेखित कर दिनांक 04.01.1997 को श्रीमती कृष्णा देवी पुत्री श्री नाथुलाल को किया गया। श्रीमती कृष्णा देवी द्वारा उक्त आवास का बैचान जरिये इकरारनामा मख्तारनामा एवं वसीयतनामा आलेखित कर दिनांक 04.02.1997 को श्री गोपाल शर्मा पत्र श्रं प्रहलाद दत्त शास्त्री को किया गया। श्री गोपाल शर्मा द्वारा उक्त आवास का बैचान जरिये इकरारनामा मुख्तारनामा एवं वसीयतनामा आलेखित कर दिनांक 12.10.2022 को श्री सौरभ औदिच्य पुत्र श्री बुद्धिप्रकाश औदिच्य को किया गया। श्री सौरभ औदिच्य पुत्र श्री बुद्धिप्रकाश औदिच्य द्वारा इस

कार्यालय में अपने पक्ष में नियमितिकरण हेतु आवेदन किया गया। अत: इस आवास का नियमितिकरण श्री सौरभ औदिच्य पुत्र श्री बुद्धिप्रकाश औदिच्य के नाम करने में किसी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सुचित करें। अन्यथा यह मानते हुए कि इस आवास का नियमितिकरण श्री सौरभ औदिच्य पुत्र श्री बुद्धिप्रकाश औदिच्य के नाम किए जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त ावास का नियमितिकरण श्री सौरभ औदिच्य पुत्र श्री बुद्धिप्रकाश औदिच्य के नाम कर दिया जावेगा। उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

#### CHAMBAL FERTILISERS AND CHEMICALS LIMITED Corporate Identification Number (CIN): L24124RJ1985PLC003293



Registered Office: Gadepan, Distt. Kota, Rajasthan, PIN - 325 208 Corporate Office: "Corporate One", First Floor, 5 Commercial Centre, Jasola, New Delhi - 110 025 Phone: +91 744 2782915 / +91 11 4169 7900; Fax: +91 7455-274130/ +91 11 40638679; Email: complianceofficer@chambal.in; Website: www.chambalfertilisers.com Company Secretary and Compliance Officer: Mr. Tridib Barat

POST BUYBACK PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR THE ATTENTION OF EQUITY SHAREHOLDERS/BENEFICIAL OWNERS OF EQUITY SHARES OF CHAMBAL FERTILISERS AND CHEMICALS LIMITED This post buyback public announcement (the "Post Buyback Public Announcement") is being made pursuant to Regulation 24(vi) of the Securities and Exchange Board of India (Buy-back of Securities) Regulations

2018 (the "Buyback Regulations"). This Post Buyback Public Announcement should be read in conjunction with the public announcement dated January 09, 2024 published on January 10, 2024 (the "Public cement"), the letter of offer dated January 22, 2024 (the "Letter of Offer") and, Corrigenda and Notice to Eligible Shareholders - Buyback of Equity Shares dated January 24, 2024, published on Januar 25, 2024. Capitalised terms used but not defined in this Post Buyback Public Announcement shall have the same meanings as assigned in the Public Announcement and the Letter of Offer Chambal Fertilisers and Chemicals Limited (the "Company") had announced a buyback of up to 1.55.55.555 (One Crore Fifty Five Lakhs Fifty Five Thousand Five Hundred and Fifty Five) fully paid-up equity

- shares of Rs. 10/- (Rupees Ten only) each of the Company ("Equity Shares") from the equity shareholders / beneficial owners holding Equity Shares as on January 18, 2024, on a proportionate basis, through the "Tender Offer" route, using the stock exchange mechanism as prescribed under the Buyback Regulations, at a maximum price of Rs. 450/- (Rupees Four Hundred and Fifty only) per Equity Share, payable in cash for an aggregate amount of up to Rs. 700 Crores (Rupees Seven Hundred Crores only) (the "Buyback") which represents 9.82% and 9.52% of the aggregate of the fully paid-up equity share capital and free reserves as per the latest audited standalone and consolidated financial statements of the Company, respectively, for the financial year ended March 31, 2023, and represented up to 3.74% of the total paid-up equity share capital of the Company
- The Company adopted the Tender Offer route for the purpose of the Buyback, The Buyback was implemented using the "Mechanism for acquisition of shares through Stock Exchange" notified by SEBI vide circular no. CIR/CFD/POLICYCELL/1/2015 dated April 13, 2015 read with SEBI circular no. CFD/DCR2/CIR/P/2016/131 dated December 9, 2016, SEBI circular no. SEBI/HO/CFD/DCR-III/CIR/P/2021/615 dated August 13, 2021 and SEBI circular no. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/35 dated March 08, 2023, including any further amendments thereof

The Tendering Period for the Buyback opened on Wednesday, January 24, 2024 and closed on Wednesday, January 31, 2024 (both days inclusive)

- हुए जा रहे थे। कुछ बोल लोगों की जुबान **DETAILS OF BUYBACK** पर चढ़ गये जैसे कि-बाईसारा बीरा, ओ
  - 1,55,55,555 (One Crore Fifty Five Lakhs Fifty Five Thousand Five Hundred and Fifty Five) Equity Shares were bought back under the Buyback, at a price of Rs. 450/- (Rupees Four Hundred and Fifty only) pe Equity Share.
    - The total amount utilized in the Buyback is Rs. 699,99,99,750 (Rupees Six Hundred Ninety Nine Crores Ninety Nine Lakhs Ninety Nine Thousand Seven Hundred and Fifty only), excluding Transaction Costs. The Registrar to the Buyback i.e. Link Intime India Private Limited ("Registrar"), considered 66,382 valid bids for 7,02,63,913 Equity Shares in response to the Buyback resulting in the subscription of approximately 4.52 times of the maximum number of Equity Shares proposed to be bought back. The details of the valid bids considered by the Registrar, are as follows:

Category No. of Equity Shares Reserved in the Buyback No. of Valid Bids **Total Equity Shares Validly Tendered** % Response Reserved Category for Small Shareholders 23.33.334 62,221 1.17.16.819 502.15% General Category for all other Equity Shareholders 1.32.22.221 4.161 5.85.47.094 442.79% 1.55.55.555 66,382 7.02.63.913 451.70%

- All valid bids were considered for the purpose of Acceptance in accordance with the Buyback Regulations and the terms set out in the Letter of Offer. The communication of Acceptance/rejection has been dispatched by the Registrar to the eligible Equity Shareholders on February 08, 2024.
- The settlement of all valid bids which were Accepted was completed by the Indian Cleaning Corporation Limited ("Clearing Corporation") on February 07, 2024 The Clearing Corporation has made direct funds payout to the Eligible Shareholders whose shares have been Accepted under the Buyback. If the Eligible Shareholders' bank account details were not available
- or if the fund transfer instruction was rejected by RBI/respective bank, due to any reason, such funds were transferred to the concerned Stock Brokers' settlement bank account for onward transfer to such Eligible Shareholders. Equity Shares held in dematerialized form Accepted under the Buyback were transferred to the Company's Demat Account on February 07, 2024. The unaccepted Equity Shares, if any, tendered by the Eligible
- Shareholders in dematerialized form was released / returned / lien removed by the Clearing Corporation and transferred directly to the respective Eligible Shareholder's demat account, as part of the exchange payout process on Wednesday, February 07, 2024. The extinguishment of 1,55,55,555 (One Crore Fifty Five Lakhs Fifty Five Thousand Five Hundred and Fifty Five) Equity Shares Accepted under the Buyback, comprising of all Equity Shares in dematerialized
- form is currently under process and shall be completed on or before Friday, February 16, 2024.
- The Company, and its Directors, accept responsibility for the obligations of the Company laid down under the Buyback Regulations.
- CAPITAL STRUCTURE AND SHAREHOLDING PATTERN
- The capital structure of the Company, pre and post Buyback, is as under:

Sr.	Particulars	Pre Buyback*		Post Buyback**		
No.		No. of Equity Shares	Amount (in Rs.)	No. of Equity Shares	Amount (in Rs.)	
1	Authorized Share Capital	44,00,00,000 Equity Shares of Rs.10 each	440,00,00,000	44,00,00,000 Equity Shares of Rs.10 each	440,00,00,000	
		21,00,00,000 Redeemable Preference Shares of Rs.10 each	210,00,00,000	21,00,00,000 Redeemable Preference Shares of Rs.10 each	210,00,00,000	
2	Issued, Subscribed and Paid-up Capital	41,62,07,852 Equity Shares of Rs.10 each, fully paid up	416,20,78,520	40,06,52,297 Equity Shares of Rs.10 each, fully paid up	400,65,22,970	

\* As on record date for Buyback i.e., Thursday, January 18, 2024. \*\* Subject to extinguishment of 1,55,55,555 Equity Shares.

3.2. Details of shareholders from whom Equity Shares exceeding 1% of the total Equity Shares bought back, are as under:

Sr. No.	Name	Number of Equity Shares Accepted under Buyback	Equity Shares Accepted as a % of total Equity Shares bought back (%)	Equity Shares Accepted as a % of total Post Buyback Equity Share Capital (%)
1.	The Hindustan Times Limited	21,51,150	13.83	0.54
2.	Zuari Industries Limited	20,52,341	13.19	0.51
3.	SIL Investments Limited	11,73,971	7.55	0.29
4.	Earthstone Holding (Two) Private Limited	5,35,777	3.44	0.13
5.	Chandra Shekhar Nopany (Shekhar Family Trust)	4,86,389	3.13	0.12
6.	HDFC Mutual Fund (Multiple Schemes)	4,78,870	3.08	0.12
7.	Nippon Life India Trustee Ltd-A/C Nippon India Small Cap Fund	3,31,491	2.13	0.08
8.	BNP Paribas Financial Markets	3,07,184	1.97	0.08
9.	Earthstone Investment & Finance Limited	3,05,649	1.96	0.08
10.	Yashovardhan Investment &Trading Co. Ltd.	2,74,078	1.76	0.07
11.	Ronson Traders Limited	2,48,388	1.60	0.06
12.	Uttam Commercial Ltd.	2,36,236	1.52	0.06
13.	Manbhawani Investment Ltd.	1,97,084	1.27	0.05
14.	Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund, A Series of Vanguard International Equity Index Funds	1,82,796	1.18	0.05
15.	Vanguard Total International Stock Index Fund	1,76,868	1.14	0.04
	Total	91,38,272	58.75%	2.28%

2023 के परिणामों में ऑनलाइन कोर्स | 3.3. Th

10141	31,00,212	00.1070		0.70
The shareholding pattern of the Company, pre and post Buyback, is as under:			***	
Category Pre-Buy		ck*	Post-Buyback**	
	Number of Equity Shares	% of Shareholding	<b>Number of Equity Shares</b>	% of Shareholding
Promoter and Promoter Group	25,20,57,905	60.56	24,32,11,277	60.70
Domestic Institutions - FIs/Banks/ Mutual Funds/ Insurance Companies/ Alternate Investment Funds	2,73,38,971	6.57		
Foreign Holding - FIIs/FPIs/NRIs/Foreign Nationals & Overseas Corporate Bodies	6,11,51,670	14.69	15,74,41,020	39.30
Indian Public, Corporates & Others	7,56,59,306	18.18	3	
Total	41,62,07,852	100.00	40,06,52,297	100.00

\* As on record date for Buyback i.e., Thursday, January 18, 2024, \*\* Subject to extinguishment of 1,55,55,555 Equity Shares.

MANAGER TO THE BUYBACK

## AXIS CAPITAL

**Axis Capital Limited** 

1st Floor, Axis House, C-2, Wadia International Centre, P.B. Marg, Worli, Mumbai - 400 025, Maharashtra, India Telephone: + 91 22 4325 2183

Fax: + 91 22 4325 2000 Email: CFCL.buyback@axiscap.in Website: www.axiscapital.co.in

Contact Person: Simran Gadh / Jigar Jain

SEBI Registration No.: INM000012029

Corporate Identification Number: U51900MH2005PLC157853 DIRECTORS RESPONSIBILITY

As per Regulation 24(i)(a) of the Buyback Regulations, the Board of Directors of the Company accepts responsibility for the information contained in this Post Buyback Public Announcement or any other information, advertisement, circular, brochure, publicity material which may be issued and confirms that such document contains true, factual and material information and does not contain any misleading

For and on hehalf of the Roard of Directors of Chambal Fertilisers and Chemicals Limited

1	To and on bonds of the board of birotors of onember 1 of thisons and	onomiouis Emitou	
	Sd/-	Sd/-	Sd/-
	Abhay Baijal <b>Managing Director</b> DIN: 01588087	Rita Menon <b>Director</b> DIN: 00064714	Tridib Barat  Company Secretary and Compliance Officer  Membershio No. 12247
1	UIN: 0100007	DIN: 00004714	Wembership No. 12247

Place: New Delhi

#### $\oplus$

Date: February 08, 2024

मांक:-एफ-15/कृ.भू.रू./2024/1349 विज्ञप्ति रण को जर्ये विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि ग्राम रामपुरा में स्थित कृषि भूमि योजना ज्ञान आर.के. नग

न्यास कोटा से चाही जा रही है।

खसरा नं. 598 में स्थित भखंड संख्या 133 आवेदक/आवेदिका श्री अब्दल मतीन खान व श्री मोहसीन खान पिसरान हाजी अब्दुल मुबीन निवासो म.नं. 186-सी एक मीनार की मस्जिद के पास छावनी रामचन्द्रपुरा कोटा द्वारा ऑनलाईन नाम हस्तान्तरण हेतु न्यास कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त भूखंड का पट्टा क्रमांक 3475 दिनांक 24.01.2005 को श्री सलमान हुसैन पुत्र श्री लियाकत हुसैन के पक्ष में जारी किया गया था। पट्टाघारी द्वारा उक्त भूखंड का बैचान जर्ये रजि. विक्रय पत्र दिनांक 28.04.2005 को श्री सत्यनारायण मेहरा पुत्र श्री मांगी लाल मेहरा को किय गया। जिसका नाम हस्तांतरण आदेश क्रमांक 652–53 दिनांक 19.07.2005 से जारी किया गया। नाम हस्तान्तरी द्वार क्त भूखंड का बैचान जर्ये रजि. विक्रय पत्र दिनांक 31.05.2013 को जर्ये मुख्तारआम श्रीमती मुन्नी बानो पत्नी श्री जान मोहम्मद टॉक द्वारा श्री अब्दल मुबीन खान पत्र श्री यासीन खान को किया गया। श्री अब्दल मुबीन खान की मुख भाग पात्र अनुसार दिनांक 17.06.2022 को हो चुकी है। केता अन्दुल मुचीन खान हारा अपने जीवनकाल में उक्त भूखंड की जयें रजि. बसीयतनामा दिनांक 06.07.2015 को आवेदकों के पक्ष में किया गया है।

. तत: श्री अब्दुल मतीन खान व श्री मोहसीन खान पिसरान हाजी अब्दुल मुबीन के पक्ष में नाम हस्तान्तरण जारी किर्य जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर 7 योम कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा लिखित मे मद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। मियाद गुजर जाने के बाद आपत्ति मान्य नही होगी।

 $\oplus$ 

 $\oplus$ 

CONCEPT